


AGARWAL



DUPLEX BOARD MILLS LIMITED

CIN : L99999DL1984PLC019052

Regd Office : 217, Agarwal Prestige Mall, Plot No. 2, Community Center, Along Road No. 44
Pitampura, Delhi - 110034 (Near M2K Cinema) Ph. : (91-11) 47527700 Fax : 011-47527777

Email : agarwalduplex1984@gmail.com Website : www.agarwalduplex.net

09/09/2020

To,
The MSEI Ltd.
Vibgyor Towers, 4th floor,
Plot No C 62, Opp. Trident Hotel
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400098

Dear Sir/Madam,

Subject: Intimation of Newspaper Publication- Notice of Annual General Meeting, E-voting and Book Closure and Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June 2020

Ref: Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirement), Regulation, 2015

This is to inform you that in compliance of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirement), Regulations, 2015, the newspaper advertisement dated 9th September 2020 published in "The Financial Express" English Edition and "Jansatta" Hindi Edition for the purpose of intimation of the following:

1. Annual General meeting to be held on Wednesday, 30th September 2020 at 11:30 A.M. through Video Conferencing /Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") facility deemed to be conducted from Registered Office of Company at 217, Agarwal Prestige Mall, Near M2K Cinema, Pitampura, Delhi-110034.
2. The Register of Member and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, September 24, 2020 to Wednesday, September 30, 2020 (both days inclusive) for taking record of the members of the Company for the purpose of Annual General Meeting.
3. The cut-off date for determining shareholders eligibility for e-voting at Annual General Meeting is 23rd September, 2020 and the e voting starts from 27th September 2020 at 10:00 A.M. and ends on 29th September 2020 at 05:00 P.M. (both days inclusive).
4. Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June 2020.

Enclosed herewith the copy of publication for your reference.

Kindly take the same in your records.

Thanking You,

Yours Faithfully,
For Agarwal Duplex Board Mills Limited


Neeraj Goel
Managing Director
DIN: 00017498



Copy to:
Calcutta Stock Exchange

Ecl. as above

NOTICE OF BOARD MEETING
 Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Tuesday, September 15, 2020** at the Registered Office of the Company at P-7, Green Park Extension, New Delhi-110016, inter-alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2020.
 This information may be accessed on the Company's website at www.oraclecredit.co.in and on the Stock Exchange's website at www.bseindia.com.
 For Oracle Credit Limited
 Sd/-
 Ashok Kumar Jain
 (Managing Director)
 Place: New Delhi
 Date: 08.09.2020

AGARWAL DUPLEX BOARD MILLS LIMITED
 (CIN: L99999DL1984PLC019052)
 Regd. Office: 217, Aggarwal Prestige Mall, Plot No. 2, Community Center, Along Road No. 44, Pitampura, New Delhi - 110034
 Website: www.agarwalduplex.net; Tel.: +91 11 47527700, Fax +91 11 47527777

ASREC (India) Limited
 Regd. Office: Solitaire Corporate Park Building NO. 2, Unit No. 201-202, A-2, 200-202 B, Gr. Floor, Andheri Ghatkopar Link Rd, Chakala, Andheri (E), Mumbai - 400093
 Delhi Office: ASREC (INDIA) Ltd., 917-918, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi - 110019 Mob. 9654454624, 9873980107, Ph. 011-4177078

FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF M/s PD Advisory Services LLP
RELEVANT PARTICULARS

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION
 NOTICE is hereby given that the 36th Annual General Meeting of Shareholders of the Company will be held on **Wednesday, 30th September, 2020 at 11:30 A.M.** through Video Conferencing / Other Audio Visual Means ("VC/OAVM"). In compliance with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India, companies are allowed to hold AGM through Video Conferencing, without the physical presence of members at a common venue. Hence the AGM of the company is being held through VC to transact the business set out in the Notice which has already been sent to the shareholders individually through e-mail if his/her e-mail address is registered with the Depository / Registrar & Transfer Agent. In accordance with the Circulars issued by MCA and SEBI, the requirement of dispatching of physical copies of Notice of AGM has been dispensed off. The Notice of 36th AGM is also available on the Company's website www.agarwalduplex.net on the website of Stock Exchange www.mse.in and on the website of www.evotingindia.com. The dispatch of Notice of AGM through emails has been completed on 8th September, 2020.
 The Company is providing its member the facility to exercise their right to vote by electronic means and the business may transact through e-voting services provided by Central Depository Services Limited (CDSL). E-Voting facility will be available at the link www.evotingindia.com. The e-voting period commences on Sunday, 27th Sept, 2020 at 10:00 A.M. and ends on Tuesday, 29th Sept, 2020 at 5:00 P.M. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, it shall not be allowed to change subsequently. The Cut-off date for the purpose of e-voting shall be Wednesday, 23rd September, 2020. For electronic voting instructions, Shareholders may go through the instructions in the Notice of AGM of the Company. Person who acquires shares and become member of the company after the dispatch of the notice and who are eligible shareholders as on cut-off date i.e. Wednesday, 23rd September, 2020 may contact Mr. Puneet Mittal on (011-29961281) or beetala@gmail.com to obtain the login id and password.
 Remote e-voting through electronic means shall not be allowed beyond 5:00 P.M. of 29th Sept, 2020. A member may participate in the general meeting even after exercising his/her right to vote through remote e-voting, but shall not be allowed to vote again in the meeting. Facility for voting will also be made available during the AGM and those present in the AGM through VC facility, who have not cast their vote through Remote e-voting shall be eligible to vote through the e-voting system at the AGM. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting.
 The manner of Remote e-voting and in the AGM for Members holding shares in physical mode or in dematerialized mode and for members who have not updated their email addresses with the Company, is provided in the Notice of the AGM.
 In case of any queries/grievances pertaining to e-voting, you may contact Mr. Puneet Mittal General Manager, Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd. at beetala@gmail.com Telephone Nos. 011 29961281 or contact Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542) or refer to frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com.
 Notice pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rule 10 of the Companies (Listing and Administration) Rules, 2014 read with regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Managing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is also hereby given that the Register of Members & Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 24th Sept, 2020 to Wednesday 30th Sept, 2020 (both days inclusive) for 36th Annual General meeting of Company.
 By Order of the Board
 For Agarwal Duplex Board Mills Ltd
 Sd/-
 (Sarika Agarwal)
 Company Secretary
 Date: 09.09.2020
 Place: Delhi

CORRIGENDUM
 Take reference to the Sale notice published on 08.09.2020 in this newspaper. Read the inspection of property in account of M/s Sahyog Techno Build Pvt. Ltd. as the 14.09.2020 instead of 14.09.2019. Rest of the details shall remain unchanged.
 Authorised officer

LATENT LIGHT FINANCE LIMITED
 (Formerly known as Galaxy Commercial Limited)
 Regd. Office: 120, Local Shopping Centre, Aurbindo Place, Hauz Khas New Delhi - 110016
 Phone No.: 011-41074949/Fax No.: 011-41074949
 E-mail: galaxycommerciallimited@gmail.com/
www.galaxycommercial.in
 CIN: L74130DL1984PLC019469

1. Name of the corporate debtor	PD Advisory Services LLP
2. Date of incorporation of corporate debtor	08/12/2014
3. Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies-Delhi
4. Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	AAD-0771
5. Address of The Registered office and Principal office (if Any) of Corporate Debtor	Green Desks 404, Vishal Bhawan, 95 Nehru Place Delhi -110019 (Closed since Oct. 21, 2019)
6. Date of Closure of Insolvency Resolution Process	18/04/2020 (With the extended period due to COVID 19, the period of CIRP expired on June 22, 2020)
7. Liquidation Commencement Date of Corporate Debtor	4/09/2020 (Order uploaded at website on 7/09/2020)
8. Name And The Registration Number of The Liquidator	MAYA GUPTA Regn. No.: IBB/IPA-002/1P-00363/2017-18/11061
9. Address, Email Id of Liquidator As Registered With The Board	Reg. No.: 38857; Narang Colony, Tri Nagar, Delhi-110035, Mob No.: 7838777116, Email id: fcsmayagupta@gmail.com
10. Address, Email ID to be used for Correspondence With Liquidator	C/o: Maya Gupta & Associates 701, Vikrant Tower No. 4, Rajendra Place, New Delhi-110008 Mob: 7838777116 Email id: cirp.pdavisory@gmail.com
11. Last Date For Submission of Claims	04.10.2020

ARYAMAN FINANCIAL SERVICES LIMITED
 (CIN: L74899DL1994PLC059009)
 Regd Office: 102, Ganga Chambers, 6A/1, W.E.A., Karol Bagh, New Delhi - 110 005.
 Corporate Office: 60, Khatau Building, Gr. Floor, Alkesh Dinesh Modi Marg, Opp. P.J. Tower (BSE Bldg.), Fort, Mumbai - 400 001
 Tel.: 022- 6216 6999 | Fax: 22630434
 Website: www.afsl.co.in | Email: info@afsl.co.in

NOTICE
 Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 read with Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Tuesday, September 15, 2020 at 05:00 PM.** at Corporate Office of the Company at 60, Khatau Building, Ground Floor, Alkesh Dinesh Modi Marg, Opp. P. J. Tower (BSE Bldg.), Fort, Mumbai - 400 001, inter-alia to discuss and approve Unaudited Consolidated and Standalone Financial results for the quarter ended June 30, 2020.
 Further, in terms of the Code of Conduct of Company adopted under SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 the trading window for dealing in the securities of the Company is already closed and shall open 48 hours after conclusion of the Board Meeting.
 The said Notice is available on the website of BSE Limited and on Company's website. (<http://www.afsl.co.in/investor-relation.html>).
 For and on behalf of
 Aryaman Financial Services Limited
 Sd/-
 Chaitali Pansari
 (Company Secretary)
 Place: Mumbai
 Date: 08.09.2020

NOTICE
 Pursuant to provision of Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulation, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the company is scheduled to be held on **Tuesday, September 15, 2020, inter-alia, to consider and approve, the Unaudited Financial Results of the company for the quarter ended June 30, 2020.**
 The copy of this notice is available on the website of the company i.e. www.lfln.in and on the website of Stock Exchange i.e. www.bseindia.com.
 By order and on behalf of the Board
 Latent Light Finance Limited
 (Formerly Known as Galaxy Commercial Limited)
 Sd/-
 (Yash Gupta)
 Company Secretary
 Date: 08th September, 2020
 Place: New Delhi

NOTICE
 Pursuant to provision of Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulation, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the company is scheduled to be held on **Tuesday, September 15, 2020, inter-alia, to consider and approve, the Unaudited Financial Results of the company for the quarter ended June 30, 2020.**
 The copy of this notice is available on the website of the company i.e. www.lfln.in and on the website of Stock Exchange i.e. www.bseindia.com.
 By order and on behalf of the Board
 Latent Light Finance Limited
 (Formerly Known as Galaxy Commercial Limited)
 Sd/-
 (Yash Gupta)
 Company Secretary
 Date: 08th September, 2020
 Place: New Delhi

Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal (New Delhi Bench) has ordered the commencement of liquidation of the **M/s PD Advisory Services LLP** on 04/09/2020.
 The stakeholders of M/s PD Advisory Services LLP are hereby called upon to submit a proof of their claims, on or before 04.10.2020 to the liquidator at the address mentioned against item 10.
 The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other stakeholders may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.
 MAYA GUPTA
 Liquidator in the matter of
 M/s PD Advisory Services LLP
 Date : 08.09.2020
 Place : Delhi

A F ENTERPRISES LIMITED
 (CIN: L18100DL1983PLC016354)
 Registered Office: DSM - 334, DLF Towers, IIIrd Floor, Shivaji Marg, New Delhi-110015, Telephones: 011-45084850
 Website: www.afterprisesltd.com, E-mail: admin@ridh.in

NOTICE OF 36th ANNUAL GENERAL MEETING
 Notice is hereby given that:
 1. The 37th Annual General Meeting of the Company ("37th AGM") will be convened on **Wednesday, 30th September 2020 at 10:00 A.M.** IST through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") Facility in transact the Ordinary Business, as set out in the Notice of the 37th AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8 April 2020, 13 April 2020 and 5 May 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without the physical presence of the Members at a common venue.
 2. In terms of MCA Circulars and SEBI Circular, the Notice of the 37th AGM and the Annual Report for the year 2019-20 including the Audited Financial Statements for the year ended 31st March 2020 ("Annual Report") has been sent by email to those Members whose email addresses are registered with the Company's Depository Participant(s). The requirements of sending physical copy of the Notice of the 37th AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circulars.
 3. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 23rd September 2020 may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of the 37th AGM through electronic voting system ("remote e-voting") of National Securities Depository Limited ("NSDL"). All the members are informed that: The business as set out in the Notice of the 37th AGM will be transacted through remote e-voting or e-voting system at the AGM; ii. The remote e-voting shall commence on Sunday, 27th September 2020 at 9:00 am IST; iii. The remote e-voting shall end on Tuesday, 29th September 2020 at 5:00 pm IST; iv. The cut-off date, for determining the eligibility to vote through remote e-voting or through the e-voting system during the 37th AGM, is 23rd September 2020;
 v. Remote e-voting module shall be disabled after 5:00 pm IST on 29th September 2020;
 vi. Any person, who becomes Member of the Company after sending the Notice of the 37th AGM by email and holding shares as on the cut-off date i.e. 23rd September 2020, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or info.afterprises@gmail.com. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote; Members may note that:
 a) the remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently;
 b) the facility for e-voting shall also be made available during the AGM, and those members present in the AGM through VC facility, who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system at the 37th AGM;
 c) the Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the 37th AGM may participate in the 37th AGM through VC/OAVM Facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e-voting system during the 37th AGM; and
 d) a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting, participating in the 37th AGM through VC/OAVM Facility and e-voting during the 37th AGM. The manner of voting remotely for members holding shares in dematerialized mode, physical mode and members who have not registered their email address is provided in the Notice of the 37th AGM.
 ix. The Notice of the 37th AGM and the Annual Report are available on the website of the Company at www.afterprisesltd.com and the website of BSE Limited at www.bseindia.com. The Notice of the 37th AGM is also available on the website of NSDL at <https://www.evoting.nsdl.com>; and
 x. Those Members holding shares in physical form, whose email addresses are not registered with the Company, may register their email address by sending, scanned copy of a signed request letter mentioning name, folio number and complete address, self attested scanned copy of the PAN Card, and self attested scanned copy of any document (such as AADHAR Card, Driving License, Bank Statement, Passport) supporting the registered address of the Member, by email to the Company's email address info.afterprises@gmail.com. Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participant. xi. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager or Ms. Soni Singh, Asst. Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, at the designated email id - evoting@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or sonis@nsdl.co.in or at telephone nos. +91 22 24994545, +91 22 24994559, who will also address the grievances connected with voting by electronic means. Members may also write to the Company's email address info.afterprises@gmail.com.
 4. The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Thursday, 24th September 2020 to Wednesday, 30th September 2020 (both days inclusive)
 A F Enterprises Limited
 Sd/-
 Abhishek Singh
 Whole Time Director
 Place: New Delhi
 Date: 08.09.2020

PNB Housing Finance Limited
 Regd. Office:- 9th Floor, Antriksh Bhavan, 22, K G Marg, New Delhi-110001.
 Phones:- 011-23357171, 23357172, 23705414, Website: www.pnbhousing.com

NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF CHAPTER III OF SECURITISATION & RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002, READ WITH RULE 3(1) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 AMENDED AS ON DATE.
 We, the PNB Housing Finance Ltd. (hereinafter referred to as "PNBHFL") had issued Demand Notice U/s 13(2) of Chapter III of the Securitization & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter referred to as the "Act") by Branch UG 11,12 & 13, SG Beta Tower, Plot no 10 Sector - 3, Vasundhara, Ghaziabad (UP) - 201011, Phone No: 0120-2699115, 2699116,117. The said Demand Notice was issued through our Authorized Officer, to you all below mentioned Borrowers/Co-Borrower since your account has been classified as Non-Performing Assets as per the Reserve Bank of India/National Housing Bank guidelines due to nonpayment of installments/interest. The contents of the same are the defaults committed by you in the payment of installments of principals, interest, etc. The outstanding amount is mentioned below. Further, with reasons, we believe that you are evading the service of Demand Notice and hence this Publication of Demand Notice which is also required U/s 13(2) of the said Act. You are hereby called upon to pay PNBHFL within a period of 60 Days of the date of publication of this demand notice the aforesaid amount along with up-to-date interest and charges, failing which PNBH FL will take necessary action under all or any of the provisions of Section 13(4) of the said Act, against all or any one or more of the secured assets including taking possession of the secured assets of the borrowers and guarantors.
 Your kind attention is invited to provisions of sub-Section (8) of Section 13 of the the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 where under you can tender/pay the entire amount of outstanding dues together with all costs, charges and expenses incurred by the PNB HFL only till the date of publication of the notice for sale of the secured assets by public auction, by inviting quotations, tender from public or by private treaty. Please also note that if the entire amount of outstanding dues together with the costs, charges and expenses incurred by the PNB HFL is not tendered before publication of notice for sale of the secured assets by public auction, by inviting quotations, tender from public or by private treaty, you may not be entitled to redeem the secured asset(s) thereafter.
 FURTHER you are prohibited U/s 13(13) of the said Act from transferring either by way of sale, lease or in any other way the aforesaid secured assets.

Sr. No.	Loan Account No / Branch	Name/Address of Borrower/Co-Borrower	Name and Address of Guarantor	Property/ies Mortgaged	Date of Demand Notice	Amount O/S as on Date of Demand Notice
1.	HOU/GHA/0515/219466 B.O. Ghaziabad	Amit Katyal, Mrs. Renu Katyal, C-4, ELM Building, Ring Road, Bangalore, Karnataka-560045, India	NA	804, 8th, Tower AH, Antriksh Heights, Village-Sihi, Sec-84, Gurgaon, Haryana, 122001	03.09.2020	Rs. 46,86,219.12/- as on 03.09.2020
2.	HOU/GHA/0415/215722 B.O. Ghaziabad	Mr. Gaurav Soni, Mrs. Swati Soni, D-58 A, Sector-26, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh-201301, India	NA	Flat No 1203,12, Tower CA7, Capital Athena(Hold), Plot No. GH-12A-2, Sector-01, Greater Noida, Near Eco village - I (Project), Noida, Uttar Pradesh, 201301	03.09.2020	Rs. 42,56,386.76/- as on 03.09.2020
3.	00306660 003120 B.O. Ghaziabad	Lily Maria Sanyal, Mr. Sayantan Sanyal, 68-D-II, Shahjahan Road, Delhi-110011, India	NA	Flat No 2802, Tower No-9, Garden Isles, Jaypee Greens Noida, Uttar Pradesh, 201301	03.09.2020	Rs. 76,76,951.88/- as on 03.09.2020
4.	00306660 001271 B.O. Ghaziabad	Mithilesh Kumar Singh Mrs. Vandana Singh, 420 Kotla Vihar, PH-2, Tilangpur, Kotla, New Delhi-110043, India	NA	Flat No 0204 2nd Floor Tower C5 UNIHOMES 3 Sector 113 Noida Uttar Pradesh, 200013,	03.09.2020	Rs. 7,99,050.71/- as on 03.09.2020
5.	HOU/GHA/0917/427857 B.O. Ghaziabad	Rajeev Tomer, Mrs. Neeti Panwar, House No 102, Block B 3 Sector 16, Rohini, New Delhi-110089, India	NA	1706, 17, Tower 30, Lotus Boulevard, Group Housing Plot No- GH-003 Situated at Sector-100, Noida, Uttar Pradesh, India-201301	03.09.2020	Rs. 88,59,416.80/- as on 03.09.2020

Place: Delhi NCR, Dated: 09-09-2020
 Authorized Officer, M/s PNB Housing Finance Limited

SALE NOTICE
M/s A M Vinyl Private Limited (In Liquidation)
 (The Company)
 Factory Add.: Plot no. A-104, Industrial Area, Bhiwadi, Dist. Alwar, Rajasthan
 Liquidator : Anup Kumar
 Liquidator Address: 734, Lawyers Chamber Block, Western Wing, Tis Hazari Court, Delhi-110054
 Email: rp.amvinyl@gmail.com | Contact No. +91-8929015290 & 8929015291

E-Auction
Sale of Assets of the Company under Regulation 32(b) & 32(d) of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016
 Date and Time of Auction: 24th September, 2020 from 11:00 a.m. to 05:00 p.m.
 (With unlimited extension of 5 minutes each)
 Sale of assets of the Company namely **M/s A M Vinyl Private Limited (in Liquidation)** in possession of the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Bench at New Delhi vide order dated 06.07.2020. The sale of Company will be done by the undersigned through the e-auction platform <https://right2vote.in/eauction/>

Sr. No.	Description	Manner of Sale	Reserve Price (INR)	EMD Amount & Documents Submission Deadline INR	Bid Incremental Value
1.	Entire Plant & Machinery and Land Building with all assets as per Assets Memorandum including Vehicle Assets in Lumpsum pursuant to Regulation 32(b) of the IBBI Liquidation Regulations, 2016	Assets in Lumpsum pursuant to Regulation 32(b) of the IBBI Liquidation Regulations, 2016	10,70,00,000/- INR Ten Crores Seventy Lacs Only	1,07,00,000/- INR One Crore Seven Lacs Only	5,00,000/- INR Five Lacs Only
2.	Entire Plant and Machinery with all assets as per Assets Memorandum excluding Vehicle Assets in Lumpsum pursuant to Regulation 32(b) of the IBBI Liquidation Regulations, 2016	Assets in Parcel pursuant to Regulation 32(d) of the IBBI Liquidation Regulations, 2016	61,00,000/- INR Sixty One Lacs Only	6,00,000/- INR Six Lacs Only	1,00,000/- INR One Lac Only
3.	Movable Assets vehicle XUV500 HR26DA7299 in Lumpsum pursuant to Regulation 32(b) of the IBBI Liquidation Regulations, 2016	Assets in Parcel pursuant to Regulation 32(d) of the IBBI Liquidation Regulations, 2016	6,80,000/- INR Six Lacs Eighty Thousand Only	1,00,000/- INR One Lac Only	10,000/- INR Ten Thousand Only
4.	Land bearing Plot no. A-104, measuring 10,00,00/- sq. mtrs. Industrial Area, Bhiwadi, Rajasthan in Lumpsum pursuant to Regulation 32(b) of the IBBI Liquidation Regulations, 2016	Assets in Parcel pursuant to Regulation 32(d) of the IBBI Liquidation Regulations, 2016	10,20,00,000/- INR Ten Crores Twenty Lacs Only	1,02,00,000/- INR One Crore Two Lacs Only	5,00,000/- INR Five Lacs Only

Terms and Condition of the E-Auction are as under
 1. First Preference will be given to Offers of Lumpsum sale, and other three became infructuous.
 2. In the Second case, Third case and Fourth case, Offer for 4thone will be entertained when Plant Machinery arrived, otherwise became infructuous.
 3. E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" through approved service provider M/s Right2Vote Infotech Pvt. Ltd.
 4. The Complete E-Auction process document containing details of the Assets, online e-auction Bid Form, Declaration and Undertaking Form, General Terms and Conditions of online auction sale are available on website <https://right2vote.in/eauction/>
 Contact: Mr. Anup Kumar at +91-8929015290 & 8929015291 E-mail : rp.amvinyl@gmail.com
 Sd/-
 Anup Kumar, Liquidator
 IBBI Regn No: IBB/IPA-002/1P-N00333/2017-18/10911
 Date : 07/09/2020
 Place: New Delhi

BTG Global Advisory
INTEGRATED CAPITAL SERVICES LIMITED
 Restructuring Advisory and Support
 Registered Office: 606 New Delhi House, 27 Barakhamba Road, New Delhi 110 001
 T/F + 91 11 4354 2784, WhatsApp +91 9811903458;
 Email: contact@raas.co.in, Website: www.raas.co.in
 Corporate Identification Number L74899DL1993PLC051981

Notice of 27th Annual General Meeting
E-Voting Information and Book Closure
 Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held on **Wednesday, 30th September, 2020 at 10:00 a.m.** IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact to business as set out in the Notice convening the 27th AGM. The AGM will be held through VC/OAVM without the physical presence of the Members in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Obligation Regulations") read with General Circular No's 17/2020 dated 13th April, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated 15th May, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 issued by the Securities & Exchange Board of India ("SEBI Circular").
 In compliance with the MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of the 27th AGM and the Annual Report for the financial year 2019-20, which, inter-alia, comprises, Notice of the AGM and the Audited financial statements (standalone and consolidated) of the Company for the financial year 2019-20, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, has been sent to all the members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). The Notice of AGM and Annual Report 2019-20 are available on the Company's website viz. www.raas.co.in and may also be accessed from the relevant section of the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.
 The details such as manner of (i) registering / updating email addresses, (ii) casting vote through e-voting and (iii) attending the AGM through VC / OAVM, has been set out in the Notice of the AGM.
 Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Act read with applicable rules thereunder and Regulation 42 of the SEBI Listing Regulations, that the Registrar of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Thursday, the 24th September, 2020 to Wednesday, the 30th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of AGM.**
 Further pursuant to the provision of Section 108 of the Act read with applicable rules thereunder and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company is providing to its Members the facility of remote e-voting before the AGM, and during the AGM in respect of businesses to be transacted at the AGM and for the purpose, the Company has appointed NSDL, for facilitating voting through electronic means. The AGM notice, inter-alia, mentions the process and manner of remote e-voting and e-voting during AGM and instructions with regard to login credentials for members holding shares in physical form or in demat form, who have not registered their email addresses either with the Company. The voting rights, by remote e-voting of the Members shall be proportion to the share in the paid up equity share capital of the Company as on the cut off date, **Wednesday, 23rd September, 2020.**
 All the members are informed that (a) the business are set out in the notice of 27th AGM shall be transacted through voting by electronic means, (b) the remote e-voting shall commence on **Saturday, the 26th September, 2020 at 9.00 AM (IST)** (c) the remote e-voting shall end on **Tuesday, the 29th September, 2020 at 5.00 PM (IST)** (d) the cut off date for reckoning the rights of Members for remote e-voting is **Wednesday, the 23rd September, 2020**, (e) the remote e-voting not be allowed after **5.00 PM (IST) on Tuesday, the 29th September, 2020**, (f) E-voting shall also be made available at the 27th AGM, (g) persons whose names are recorded in the register of Members/Beneficial Owners maintained by the depositories as on cut off date **Wednesday, 23rd September, 2020** shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting at the AGM, (h) persons whose names have acquired shares and becomes members of the Company after the notice has been sent electronically and holding shares as on the cut off date **Wednesday, 23rd September, 2020** may obtain the login id and password by

PG INDUSTRY LIMITED
 Regd. Off.: A-30, S-11, Second Floor, Kailash Colony, New Delhi-110048 Website: www.pgil.com
 Email: pgindustryfd@gmail.com
 CIN: L74899DL1995PLC056421

NOTICE
 Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 (1) (a) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) 2015, Meeting No. 05/2020 - 21 of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 15th day of September, 2020 at 05:30 P.M. at the registered office of the company to consider and approve the unaudited Financial Results for the quarter ended on June 30, 2020.

As per the provisions of the Code of Practices and Procedures for Fair Disclosure of Unpublished Price Sensitive Information and Code of Conduct to Regulate, Monitor and Report Trading by Insiders, trading window has been closed and will re-open 48 hours after the submission of outcome of the Board Meeting to the stock exchange for designated period. The notice is also available on the website of the Stock Exchange i.e. www.bseindia.com and on the website of the Company.

For PG Industry Limited
 Sd/-
 Saket Dalmia
 Date: 08.09.2020 Managing Director (DIN: 00035351)

OROSIL SMITHS INDIA LIMITED
 Regd. Office: Flat No. 620, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi-110019
 Email: info@orosil.com
 Website: www.orosil.com
 CIN: L74110DL1994PLC059341
 Phone No. 120-4125476

NOTICE
 Notice is hereby given that the meeting of Board of Directors of the company to be held on Saturday, the 12 day of September, 2020 at 04.00 p.m. at the Corporate Office of the Company at A-89, Sector-2, Noida-201301 inter alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the first Quarter ended 30 June, 2020 and any other item with the permission of the Chair.

The said notice may be accessed on the Company's website www.orosil.com and on the stock exchange website at www.bseindia.com.

By Order of the Board
 For Orosil Smiths India Ltd. Sd/-
 (B.K. Narula)
 Managing Director
 Date: 07.09.2020 DIN: 00003629

SOMI CONVEYOR BELTINGS LTD.
 Regd. Office: 4F-15, 'Oliver House', New Power House Road, Jodhpur-342003. Phone: +91-291-2765400 to 09 | Fax: +91-291-2765410
 E-mail: info@sominvestor.com | Website: www.sominvestor.com
 CIN: L25192RJ2000PLC016480

NOTICE OF 20th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION
 Notice is hereby given that the 20th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 30th September, 2020 at 11:30 a.m. at 4F-15, 'Oliver House', New Power House Road, Jodhpur - 342003 to transact the business as set out in the Notice of AGM. The Integrated Annual Report for the financial year 2019-20 including the notice convening the AGM has been sent to the members of the Company electronically to those members who have registered their e-mail address with the Depositories/Companies. The said Annual Report is available on the Company's website and also available for inspection at the Registered Office of the Company on all working days during business hours up to the date of the Meeting. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain close from 24th September, 2020 to 30th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of the 20th AGM of the Company. Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the Meeting by electronic means ("e-voting"). The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the Meeting ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as the agency to provide e-voting facility. The communication relating to remote e-voting is given in the Notice convening the AGM, uploaded on the website of the Company at www.sominvestor.com and on the website of CDSL at www.evotingindia.com. Members are requested to further note the following:

(a) The remote e-voting facility shall commence on Sunday, 27th September, 2020 at 9:00 a.m. and end on Tuesday, 29th September, 2020 at 5:00 p.m. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the aforesaid date and time.

(b) A person whose name appears in the Register of Members / Beneficial Owners as on the cut-off date, i.e., Wednesday, 23rd September, 2020 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / voting at the Meeting.

(c) A person who becomes Member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on cut-off date may follow the procedure as stated in Notice of AGM, and exercise his right to vote by remote e-voting.

(d) Facility of voting through Poll paper will be made available at the AGM and Members attending the Meeting, who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the Meeting through poll.

(e) The members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote(s) again.

(f) Any queries/grievances relating to remote e-voting may be addressed to the Company at Somi Conveyor Beltings Limited, 4F-15, 'Oliver House', New power House Road, Jodhpur - 342003, Tel: +91-291-2765400 to 09, email id - cmd@somiconveyor.com, karlekar@unisc.in

By order of the Board of Directors
 For SOMI CONVEYOR BELTINGS LIMITED Sd/-
 Om Prakash Bhanjali
 Chairman & Managing Director
 Date: 7th September, 2020

यूको बैंक UCO BANK
 (यूको संस्कार का उन्मेषण) (A Govt. of India Undertaking)

BRANCH OFFICE: 31/32, ASA RAM ROAD, G.T. ROAD, SHAHDARA, DELHI-110032

POSSESSION NOTICE [Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002]
 Whereas the undersigned being the authorized officer of the UCO BANK, Shahdara, Delhi Branch, under the Securitization & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a Demand Notice dated 17.04.2014, calling upon the Borrowers: **MRS. KAMAR JAHAN WIFE OF HAMID ALI**, to repay the amount mentioned in the notice being **Rs.12,48,128/- (Rupees Twelve Lakh Forty Eight Thousand One Hundred Twenty Eight Only)** with further interest from date of NPA, within 60 days from the date of receipt of the said notice, together with incidental expenses, cost, charges etc. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers/Mortgagor and the public in general that the undersigned has taken Physical Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred under section 13 (4) of the said Act read with rule 8 of the said rule on this **04.09.2020**. The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the UCO BANK, Shahdara, Delhi Branch, for an amount of **Rs.10,87,742/- (Rupees Ten Lakhs Eighty Seven Thousand Seven Hundred Forty Two Only)** as on 04.09.2020 with further interest from date of NPA, together with incidental expenses, cost, charges etc. **The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.**

DESCRIPTION OF MOVABLE / IMMOVABLE PROPERTY
 Immovable Property situated at C-35, Measuring No.100 Sq.Yards, out of Khasra No.116/1, along with its whole structure and right to construct upto last storey fitted with electricity & water tap connection situated at Village - Ghonda Gurjan Banger in the abadi of North Ghonda, Illaqa - Shahdara, Delhi-110053.

DATE: 04.09.2020
PLACE: NEW DELHI

Authorised Officer,
 UCO BANK

E-Land Apparel Ltd.
 CIN: L1710KA1997PLC120558
 Regd. Office: F16/2B, Sri Vinayaka Ind Estate, Singhsaroad Near Dastin House Showroom House, Post, Bangalore KA 560094
 Ph: 080-42548800 Fax: 080-28472002
 E-Mail: investor@elandapparel.com
 Website: www.elandapparel.com

NOTICE
 Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the company is scheduled to be held on Monday, September 14, 2020 by means of Video Conferencing at No. 2106 Block 2 Srotha Classic apartment,Haralur Main Road, Near Ozone Residenza, Bangalore South,Bangalore 560102 inter alia, to consider and approve Unaudited Financial Results along with Limited Review Report for the quarter ended 30th June, 2020. The Notice of Board Meeting is also available on the website of the company at www.elandapparel.com and on BSE www.bseindia.com.

For E-Land Apparel Limited Sd/-
 JAE HO SONG
 Managing Director
 CIN: 07830731
 Date: 08 September 08, 2020

ATMA STEELS LIMITED
 CIN: L27106UP1970PLC003353
 Regd. Office: C-139, Industrial Area, Bullandshahar Road, Ghaziabad-201009 (U.P.)
 Email: atmasteelsltd@rediffmail.com
 Website: http://www.atmasteelsltd.com
 Tel. No. 09310506965, 9350506966

NOTICE is hereby given that a Meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, the 15th day of September, 2020 to consider, inter alia, discuss and approve the unaudited financial results of the Company along with limited review report presented by the statutory auditor for the quarter ended 30th June, 2020 in pursuance of Regulation 29, Regulation 33 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The said information is also available on the Website of the Company i.e. http://www.atmasteelsltd.com and also on the website of Stock Exchanges i.e. www.bse-ind and www.nse-ind where the shares of the Company are listed. For Atma Steels Limited Sd/-
 Harbhajan Singh
 Managing Director
 Date: 8th September, 2020
 Place: Ghaziabad

SUNRISE DISTILLERIES LIMITED
 CIN: L1551DL1985PLC021272
 Registered Office: 3/14A, 1st Floor, Vijay Nagar, Double Storey, Delhi-110009
 Contact No.: 011-27132054, 09668008427
 Email: sunrise-distillerieslimited@gmail.com

NOTICE OF 35th Annual General Meeting and Remote E-Voting information
 NOTICE is hereby given that the 35th Annual General Meeting (AGM) of the members of Sunrise Distilleries Limited will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") on Wednesday, the 30th September, 2020 at 05:00 P.M. to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of AGM. The Notice of AGM along with the Annual Report and remote e-voting details have been sent in electronic mode to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/RTA/Depository & the date of completion of the AGM of the notices to the shareholders is 07th September, 2020. In case you have not registered your email ID with the Company/ Depository, please follow below instructions to register your email ID for obtaining Notice of AGM and Annual Return and login details for e-voting.

Physical Holding: Send a request to Registrar and Transfer Agents of the Company, Beatal Financial & Computer Services (P) Ltd. at beatalra@gmail.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN (Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address.

Please send your bank detail with original cancelled cheque to our RTA i.e. Beatal Financial & Computer Services (P) Ltd. at Beatalra@gmail.com. If you are a demat holder, please send your demat holding details to our RTA i.e. Beatal Financial & Computer Services (P) Ltd. at Beatalra@gmail.com. If you are a physical holder, please send your bank details to our RTA i.e. Beatal Financial & Computer Services (P) Ltd. at Beatalra@gmail.com. If you are a physical holder, please send your bank details to our RTA i.e. Beatal Financial & Computer Services (P) Ltd. at Beatalra@gmail.com. If you are a physical holder, please send your bank details to our RTA i.e. Beatal Financial & Computer Services (P) Ltd. at Beatalra@gmail.com.

Demat Holding: Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address as per the process advised by DP. Please also update your bank detail with your DP for direct payment by NACH if declare by company.

These documents are also available on the website of Metropolitan Stock Exchange of India (MSEI) www.msei.in for download by the members. Notice is hereby given in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 that the Company has offered e-voting facility for transacting all the business by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) through their portal www.evotingindia.com to enable the members to cast their votes electronically. The remote e-voting period commences on Sunday, 27th September, 2020 (09:00 AM) and ends on Tuesday, 29th September, 2020 (05:00 PM). No e-voting shall be allowed beyond the said date and time. During this period members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 23rd September, 2020, may cast their vote by remote e-voting. Any person who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 23rd September, 2020, may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk@cdsindia.com or RTA, Beatal Financial & Computer Services (P) Ltd. at beatalra@gmail.com. However, if the members are already registered with CDSL for remote e-voting then they can use their existing user ID and password for casting their vote. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. The facility for voting through e-voting shall be made available at the AGM and the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Mr. Naveen Kumar Rastogi (M. No. FC-3685), Proprietor, M/s. N K Rastogi & Associates, Company Secretaries, has been appointed as Scrutinizer for the e-voting process. The detailed procedure for remote e-voting is contained in the letter sent with the Notice of the AGM. Also the register of members and share transfer shall remain closed (Book Closure) from 23rd September, 2020 to 30th September, 2020 (both days inclusive). Any query/grievance relating to e-voting may be addressed to Ms. Yashica Sinha, Company Secretary and Compliance Officer, Sunrise Distilleries Limited, 3/14A, 1st Floor, Vijay Nagar, Double Storey, Delhi-110009, Mobile No.: 011-27132054, Email: sunrise-distillerieslimited@gmail.com.

For SUNRISE DISTILLERIES LIMITED Sd/-
 Yashica Sinha
 Company Secretary & Compliance Officer
 Date: 08.09.2020

ARCHIDPLY INDUSTRIES LIMITED
 CIN: L85110UR1995PLC080627
 Regd. Office: Plot No. 7, Sector - 9, Integrated Industrial Estates, Sidcul, Pant Nagar, Udhampur, Jammu, Jammu & Kashmir, 181001
 Phone: 05944-250270, Fax: 05944-250269
 Cor. Office: 2/9, 1st floor, W.H.S. Kirti Nagar, New Delhi - 110015
 Phone: 011-45642555, Website: www.archidply.com, Email: cs@archidply.com

Notice of AGM, E-voting and Book Closure
 Notice is hereby given that the Twenty Fifth (25th) Annual General Meeting (AGM) of the Members of Archidply Industries Limited will be held on Tuesday, September 29, 2020 at 11:30 A.M. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as specified in AGM Notice.

Notice is also hereby given that pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 and the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the register of members and share transfer books of the company shall remain closed from 23rd of September 2020 to 29th of September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of aforesaid AGM.

Notice of the 25th AGM along with the Annual Report 2019-20 was sent by electronic mode to those members whose email addresses are registered with the company/depositories. In terms of section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations 2015, as amended from time to time, the company is pleased to provide its members the facility to cast their vote electronically, through the e-voting services provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) on all resolutions proposed to be considered at the aforesaid AGM. Further, the facility for e-voting shall also be available at the AGM. The members who have already cast their vote electronically through the e-voting prior to the AGM may also attend the AGM through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) but shall not be entitled to cast their vote at the AGM.

Ms. Komal, Proprietor of M/s Komal and Associates, Company Secretaries has been appointed as Scrutinizer to scrutinize the e-voting and remote e-voting process and the e-voting at AGM in fair and transparent manner.

All the members are hereby informed that:

i. The Ordinary and special business as set out in the Notice of 25th AGM of the company may be transacted through voting by electronic means;

ii. The remote e-voting period commences on 26th September, 2020 (09:00 A.M.) and ends on 28th September, 2020 (05:00 P.M.)

iii. Cut-off date is 22nd September, 2020

iv. Persons who acquire and becomes shareholder of the Company after the dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. 22nd September, 2020 can do remote e-voting by obtaining the login ID and password by sending an email to helpdesk.evoting@cdsindia.com or call on 022-23058542/43 by mentioning their Folio No./DP ID. However, if such shareholder is already registered with the [RTA/DP] for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.

v. The members may note that:

a. Remote e-voting shall not be allowed beyond 28th September, 2020 (05:00 p.m. IST)

b. The facility for voting through e-voting shall be made available at the AGM of the Company and members attending the AGM who have not already casted their vote by remote e-voting shall be able to vote at the AGM

c. A member may participate at the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again

d. A person whose name is recorded in the register of member or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. 22nd September, 2020 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting at the AGM

vi. The notice of 25th AGM of the Company is available on the Company's website (www.archidply.com) and CDSL's website (www.evotingindia.com); and

vii. In case of any queries before or during the AGM, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual available at the www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdsindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542).

viii. For detailed instructions pertaining to e-voting, members may please refer to the section "Notes" in the Notice of the Annual General Meeting.

By order of the Board of Directors
 For Archidply Industries Limited Sd/-
 Atul Krishna Pandey
 Company Secretary & Compliance Officer
 Date: 08.09.2020

RDB RASAYANS LIMITED
 CIN: L36999WB1995PLC074860
 Regd. Office: Bikaner Building, 8/1 Lal Bazar Street, 3rd Floor, Room No. 09, Kolkata-700 001
 Ph- 033 44500500, Fax: 033-22420588;
 Email id- info@rdbindia.com; website- www.rdbgroup.in

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION
 NOTICE is hereby given that the 25th Annual General Meeting (AGM) of the Members of RDB Rasayans Limited will be held on Wednesday, the 30th day of September, 2020 at 11:30 A.M. (IST) through video conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the business(es) as set out in the Notice dated 30th June, 2020.

The AGM will be convened in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") read with General Circular No. 14/2020 dated 8 April 2020, No. 17/2020 dated 13 April 2020, No. 20/2020 dated 05 May 2020, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/MMD1/CIR/P/2020/79 dated 12 May 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") without the physical presence of the members at a common venue.

Pursuant to section 108 of the Act, and in compliance with the above circulars, the Company has completed dispatch of the Notice of the AGM and Annual Report of the Company for the year ended 31st March 2020 only by email on 08th September 2020 to all those members, whose email addresses are registered with the Company / Company's Registrar & Share Transfer Agent (RTA) i.e. Niche Technologies Pvt. Ltd. or with their respective Depository Participants ("Depository"). The notice of the AGM as well as the Annual Report are also available on the Company's website https://www.rdbgroup.in/annualreport.php.

The Company pursuant to section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Secretarial Standard on General Meeting (SS-2) issued by the Institutes of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, members have been provided with facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using an electronic voting system (remote e-voting). The Company has engaged the services of NSDL for providing facility for remote e-voting, participation in the AGM through VC/OAVM and voting at the AGM. The voting rights of members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Wednesday, 23rd September, 2020 ("cut-off date").

The manner of remote e-voting and voting at the AGM by the members holding shares in the dematerialized mode, physical mode and for the members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of AGM.

The remote e-voting commences on Sunday, 27th September, 2020 at 9:00 a.m. (IST) and ends on Tuesday, 29th September 2020 at 5:00 P.M. (IST). Members may cast their votes electronically during this period. The remote e-voting shall be disabled by NSDL thereafter. Those members, who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting at the AGM. Once the vote on a resolution is cast by the member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend /participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes again.

Any person who becomes a members of the Company after dispatch of Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. 23rd September, 2020 may obtain the User ID and password by sending a request to evoting@nsdl.co.in or nichetech@nichetechpl.com. However, if the member is already registered with NSDL for e-voting then he can use the existing user ID and password for casting the vote through e-voting.

In case of any queries /grievance relating to remote e-voting or e-voting at the AGM, please refer to Frequently Asked Questions (FAQ) and e-voting user manual for the members available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact at toll free no. 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Mr. Amit Vishai, Senior Manager or M/s. Pallavi Mhatre, Manager, National Securities Depository Limited, at the designated email IDs: amitv@nsdl.co.in or pallavi@nsdl.co.in or at telephone nos: +91-22-24994360 or +91-22-24994545.

The results of e-voting will be declared within 48 hours from the conclusion of the 25th AGM. The declared results along with the scrutiner's report will be available forthwith on the company's website www.rdbgroup.in. Such results will also be forwarded by the company to BSE Ltd.

The notice of the 25th AGM is available on the company's website www.rdbgroup.in and on the website of BSE www.bseindia.com.

By order of the Board
 for RDB Rasayans Limited Sd/-
 Shradha Jain
 Company Secretary & Compliance Officer
 Date: 08/09/2020

JMT AUTO LIMITED
 AN AMTEK Group Company
 (CIN L42274D1997PLC270939)
 Regd. Office: 3 LSC, Pamposh Enclave, Gurugram Market, Opp. LSC Market, New Delhi - 110 048
 E-mail: jmt.auto@jmtauto.com; Phone: 0657-6626340; Website: www.jmtauto.com

NOTICE OF 33RD ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE
 Notice is hereby given to the Members of JMT AUTO Limited ("Company") that the 33rd Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Tuesday 29th September, 2020 at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing / Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"). The Company has on 7th September 2020 duly completed:

(i) dispatch of Notice to Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Share Transfer Agent and Depository along with E-voting Instructions, dated 23rd September, 2020 for 33rd Annual General Meeting for Financial Year 2019-2020y electronic along with the details of Login ID and Password to the Members. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide MCA Circulars and the SEBI Circular

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 ("Act") read with relevant applicable rules, as amended and Regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 notice is also given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 23rd September 2020 to 29th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Further pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act") read with, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and substituted by Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the 33rd Annual General Meeting (AGM) by electronic means (remote e-voting). The facility for online voting through electronic means shall also be made available at the AGM and Members who have already cast their votes through electronic mode during the schedule voting period prior to the date of the meeting will not be entitled for online voting as on the date of the AGM. Members participating through the VC / OAVM over Zoom facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (hereinafter referred as "CDSL") as agency to provide remote e-voting facility. The details pursuant to the provisions of the Act and Rules are given hereunder:

- The remote e-voting period commences on 26th September, 2020 and ends on 28th September, 2020. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, along with person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the Depositories.
- As on the cut-off date of 22nd September, 2020 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through electronic means. Any Person who has acquired shares and became member after the dispatch of the Notice of the AGM but before the "Cut-off Date" may obtain their user ID and Password for e-voting from the Company's Registrars & Share Transfer Agent, M/s. C B Management Services Pvt Ltd P-22, Bondel Road, Kolkata-700019, West Bengal, Tel: 033-4011672; Email: rta@cbmsl.com. However, if the member is already registered with CDSL for remote e-voting then he/she can use his/her existing user ID and password for casting the vote through e-voting.
- The Notice of AGM and the Annual Report 2019-20 is available at company's website at www.jmtauto.com and also at CDSL website https://www.evotingindia.com
- For detailed instructions pertaining to remote e-voting, Members may refer in the section "Notes" in Notice of the 33rd AGM.
- Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the meeting may also join in the meeting through Video Conferencing/Other Audio Visual Means (OAVM) over Zoom but shall not be entitled to cast their vote again through online voting.
- In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at: www.evotingindia.com, and in case of queries email to helpdesk.evoting@cdsindia.com.
- For the process and manner of e-voting and voting during the AGM, Members may go through the instructions mentioned in the AGM Notice and in case of queries email to helpdesk.evoting@cdsindia.com. The members may further refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for shareholders at the Download Section at the said website. In case of any queries or issues regarding e-voting, Members may please contact the Company at jmt.auto@jmtauto.com or to Ms. Mona K Bahadur, Compliance Officer, Phone- 0657 6626340

For JMT AUTO LIMITED Sd/-
 (Mona K Bahadur)
 Company Secretary
 Date: 8th September, 2020

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2020 (Rs. in Lacs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended			Year ended
		30.06.2020	31.03.2020	30.06.2019	
	(Refer Notes below)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
Revenue from Operations					
a)	Interest Income	25.70	33.33	23.44	118.47
b)	Dividend Income	-	-	-	-
c)	Rental Income	-	-	-	-
d)	Fees and commission Income	-	-	-	-
e)	Net gain on fair value changes	-	-	-	-
f)	Net gain on recognition of financial instruments under amortised cost category	-	-	-	-
g)	Sale of products (including Excise Duty)	-	-	-	-
h)	Sale of services	-	-	-	-
i)	Others (to be specified)	-	0.10	-	0.10
I	Total Revenue from operations	25.70	33.43	23.44	118.57
II	Total Income	-	0.16	-	0.16
III	Total Income (+/-)	25.70	33.59	23.44	118.73
Expenses					
a)	Finance Cost	6.31	7.09	3.78	23.12
b)	Fee and Commission Expenses	-	-	-	-
c)	Net loss on fair value changes	-	-	-	-
d)	Net loss on recognition of financial instruments under amortised cost category	-	-	-	-
e)	Impairment on financial instruments	-	-	-	-
f)	Cost of materials consumed	-	-	-	-
g)	Purchases of Stock-in-trade	-	-	-	-
h)	Changes in Inventories of finished goods, stock-in-trade and work-in-progress	-	1.34	-	1.34
i)	Employee benefits expense	7.35	11.40	6.34	25.27
j)	Depreciation and amortisation expense	0.02	0.07	-	0.10
k)	Listing fees	4.72	0.48	-	5.50
l)	Legal & Professional Fees	-	5.05	1.91	12.40
m)	Other general & miscellaneous Expenses	2.46	7.00	1.91	33.96
IV	Total expenses	20.87	32.42	13.94	101.69
V	Profit / (loss) before exceptional items and tax (III-IV)	4.83	1.01	9.50	17.04
VI	Exceptional items	-	-	-	-
VII	Profit/(loss) before tax (V-VI)	4.83	1.01	9.50	17.04
VIII	Tax expense	-	-	-	-
(1)	Current Tax	1.25	0.80	2.47	4.45
(2)	Deferred Tax	-	(0.04)	-	0.19
IX	Profit / (loss) for the period from continuing operations (VII-VIII)	3.57	0.25	7.03	12.40

भारत के पास 2022 तक 220 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता होगी : मोदी

नई दिल्ली, 8 सितंबर (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के 2022 तक अपनी स्वच्छ ऊर्जा क्षमता को 134 गीगावाट से बढ़ाकर 220 गीगावाट कर लेने का भरोसा जताया। साथ ही उन्होंने प्रौद्योगिकी उन्नयन के जरिए आगे बढ़ने में और कमी लाने की आवश्यकता पर बल दिया। मोदी पहले अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आइएसए) के प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का

उद्घाटन संबोधन देने वाले थे, लेकिन अन्य व्यस्तताओं के चलते ऐसा नहीं हो सका। नवीन और नवीकरणीय मंत्री आरके सिंह ने इस वचुअल सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मोदी का संदेश पढ़ा।

मोदी का संदेश पढ़ते हुए सिंह ने कहा, 'हमने अपने गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाकर 134 गीगावाट किया है। यह हमारे कुल बिजली उत्पादन का करीब 35 फीसद है। हमें पूरा विश्वास है कि 2022 तक हम इसे बढ़ाकर 220 गीगावाट कर लेंगे।'

सरकार आइआरसीटीसी में बिक्री पेशकश के जरिए 15 से 20 फीसद हिस्सेदारी बेचेगी

नई दिल्ली, 8 सितंबर (भाषा)।

सरकार की योजना आइआरसीटीसी में बिक्री पेशकश के जरिए अपनी 15 से 20 फीसद हिस्सेदारी को बेचने की है।

वित्त मंत्रालय के निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने इसके लिए मंचेंट बैंकों से प्रस्ताव के लिए आवेदन (आरएफपी) आमंत्रित करने की निविदाएं जारी कर चुका है। इसके लिए 10 सितंबर तक बोलियां आमंत्रित की हैं। लेकिन इसमें यह ब्योरा नहीं बताया गया है कि 'इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कार्पोरेशन (आइआरसीटीसी) की कितनी हिस्सेदारी बेची जानी है। विभाग ने हालांकि चार सितंबर को संभावित बोलीदाताओं के साथ एक बोली पूर्व बैठक भी हुई है। दीपम ने इसके बाद संभावित बोलीदाताओं द्वारा पूछे गए सवालों पर अपने जवाब वेबसाइट पर डाल दिए हैं।

सूचकांक 52 अंक टूटा, निफ्टी 11,350 से नीचे

मुंबई, 8 सितंबर (भाषा)।

चीन के साथ सीमा पर तनाव की ताजा खबरों के बीच स्थानीय शेयर बाजारों ने मंगलवार को अपना शुरुआती लाभ गंवा दिया और ये मामूली नुकसान के साथ बंद हुए। कारोबारियों ने कहा कि रूप में गिरावट और वृद्ध आर्थिक मोर्चे पर अनिश्चितता की वजह से भी निवेशकों ने सतर्कता बरती।

बंबई शेयर बाजार की शुरुआत उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के साथ हुई। दोपहर के कारोबार में सूचकांक मजबूत हुआ। लेकिन कारोबार के अंतिम घंटे में बिकवाली का सिलसिला चलने से अंत में सूचकांक 51.88 अंक या 0.14 फीसद नुकसान के साथ 38,365.35 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 37.70 अंक या 0.33 फीसद के नुकसान से 11,317.35 अंक पर बंद हुआ। सूचकांक की कंपनियों में टाटा स्टील का

शेयर सबसे अधिक 4.13 फीसद के नुकसान में रहा। भारतीय एअरटेल, एक्सिस बैंक, ओएनजीसी, सन फार्मा, एनटीपीसी और एसबीआई के शेयर भी नीचे आए। दूसरी ओर एचसीएल टेक, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, आइसीआइसीआइ बैंक और टेक महिंद्रा के शेयर 2.26 फीसद तक चढ़ गए।

वृद्ध आर्थिक मोर्चे पर रेटिंग एजेंसियों फिच और इंडिया रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट के अपने अनुमान को बढ़ा दिया है। इस बीच, सेना ने कहा है कि चीन के सैनिकों ने सोमवार रात को हवा में गोलियां चलाईं और पूर्वी लद्दाख में हमारे अग्रिम ठिकाने तक आने की कोशिश की। इससे पहले चीन की सेना ने सोमवार देर रात को आरोप लगाया था कि भारतीय सैनिकों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया और पूर्वी लद्दाख में पेगों झील के पास चेतावनी देने के लिए गोलियां चलाईं।

रेलियेयर ब्रोकिंग के उपाध्यक्ष (शोध) अजित मिश्रा ने कहा कि उतार-चढ़ाव के बीच बाजार नुकसान के साथ बंद हुए। हालांकि, शुरुआत में बाजार लाभ में थे, लेकिन अंतिम घंटे में रुख पलट गया। भारत-चीन के बीच तनाव बढ़ने की खबरों से अंतिम घंटे में जबरदस्त बिकवाली चली। इसके अलावा वैश्विक बाजारों में बिकवाली और बैंकिंग शेयरों में गिरावट से भी बाजार धारणा प्रभावित हुई। बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप में 1.49 फीसद तक की गिरावट आई। वैश्विक बाजारों में मिला-जुला रुख था। निवेशकों को इस सप्ताह यूरोपीय केंद्रीय बैंक से नीतिगत संकेतों का इंतजार है।

वैश्विक चायदा बाजार में ब्रेंट कच्चा तेल 1.69 फीसद के नुकसान से 41.30 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 25 पैसे टूटकर 73.60 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

दिल्ली-मेरठ रेल गलियारे के लिए सरकार-एडीबी में 50 करोड़ डॉलर कर्ज का समझौता

नई दिल्ली, 8 सितंबर (भाषा)।

सरकार ने दिल्ली-मेरठ के बीच क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) के वित्त पोषण के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ 50 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

एडीबी के जारी एक बयान में कहा गया है कि एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने मंगलवार को 50 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह एडीबी की ओर से दी जाने वाली एक अरब डॉलर की ऋण लगातार पर हस्ताक्षर की सुविधा की पहली किस्त है। यह कर्ज भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपर्क और आवागमन की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए है। इसके तहत दिल्ली-मेरठ के बीच 82 किलोमीटर की तीव्र गति का आधुनिक क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) गलियारा बनाया जाएगा।

दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस निवेश परियोजना के ऋण समझौते पर आर्थिक मामले विभाग में अतिरिक्त सचिव समीर कुमार खरे और एडीबी के भारत निवास मिशन के निदेशक केनीची योकोयामा ने हस्ताक्षर किए। ऋण की यह पहली किस्त दिल्ली से उसके पड़ोसी राज्यों के बीच बनने वाले तीन प्राथमिक रेल गलियारों में से पहले गलियारे के लिए उपलब्ध कराई गई है। यह योजना एनसीआर क्षेत्रीय योजना 2021 के तहत बनाई गई है।

खरे ने समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद कहा कि इस परियोजना से दिल्ली एनसीआर के दूसरे शहरों को भी आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित होने और बेहतर संपर्क सुविधा उपलब्ध होगी। इससे दिल्ली पर लगातार केंद्रित दबाव में भी कमी आएगी। गलियारे की तीव्र गति परिवहन के मुताबिक 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार क्षमता वाला बनाया जाएगा जिसमें 5 से 10 मिनट में रेल उपलब्ध होगी। यह गलियारा दिल्ली के सराय काले खां से लेकर उत्तर प्रदेश के मेरठ गति का आधुनिक क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) गलियारा बनाया जाएगा।

भारत, अमेरिका, इजराइल मिलकर 5-जी प्रौद्योगिकी पर कर रहे काम

वाशिंगटन, 8 सितंबर (भाषा)।

भारत, इजराइल और अमेरिका ने विकास वाले क्षेत्रों और अगली पीढ़ी की उभरती प्रौद्योगिकियों में आपसी सहयोग से काम करना शुरू कर दिया है। एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि तीनों देश 5-जी संचार नेटवर्क भी मिलकर काम कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि तीनों देश एक पारदर्शी, खुले, विश्वसनीय और सुरक्षित 5-जी संचार नेटवर्क पर काम कर रहे हैं। सामुदायिक नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई, 2017 की इजराइल यात्रा के दौरान लोगों से लोगों के संपर्क पर सहमति बनी थी। विकास वाले और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में त्रिपक्षीय पहल इसी का हिस्सा है।

अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकी एजेंसी (यूएसएआईडी) की उप-प्रशासक बोनी ग्लिक ने कहा कि 5-जी में आपसी सहयोग तो बड़े कदमों की दिशा में सिर्फ पहला कदम है। ग्लिक ने एक बातचीत में कहा कि हम विज्ञान, शोध व विकास और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों में मिलकर काम कर रहे हैं। इस भागीदारी के जरिए हम आधिकारिक तौर पर इन संबंधों की पुष्टि कर रहे हैं। इससे पहले ग्लिक ने अमेरिका-भारत-इजराइल के बीच वचुअल शिखर बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हम दुनिया की विकास से जुड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए इन भागीदारों के साथ काम कर काफी रोमांचित हैं।

इस बैठक को भारत में इजराइल के राजदूत रॉन मलका और उनके समकक्ष सजीव सिंगला ने भी संबोधित किया। ग्लिक ने कहा कि जिस एक क्षेत्र में हम सहयोग कर रहे हैं, वह है डिजिटल नेतृत्व और नवोन्मेषण। विशेष रूप से हमारा सहयोग अगली पीढ़ी की 5-जी प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है।

ईपीएफओ ने अप्रैल से अब तक किया 35,445 करोड़ के दावों का निपटारा

नई दिल्ली, 8 सितंबर (भाषा)।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने चालू वित्त वर्ष के शुरुआती पांच महीनों के दौरान कुल निपटार 35,445 करोड़ रुपए के 94.41 लाख भविष्य निधि दावों का निपटारा किया है। मंगलवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई है।

चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से अगस्त अवधि के दौरान ईपीएफओ ने पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 32 फीसद अधिक दावों का निपटारा किया है। वहीं इस दौरान विवरित की गई राशि में भी करीब 13 फीसद की वृद्धि हुई है। श्रम मंत्रालय के बयान के मुताबिक कोविड-19 महामारी के कारण लागू प्रतिबंधों के बावजूद ईपीएफओ 94.41 लाख दावों का निपटारा करने में सफल रहा है।

THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD.					
C-29, Community Centre, Pankha Road, Janakpuri New Delhi - 110058 Phone : 011-25611041, 25611042, 25611043, 25611044 e-mail: leagal@kangrabank.com, legal1@kangrabank.com Website : www.kangrabank.com					
PUBLIC NOTICE FOR SALE					
In terms of The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, and Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, and in exercise of the powers conferred under Section 13(2) & 13(4) thereof, the Bank has taken over the possession of the under mentioned property. The Bank intends to sell the property DETAILED HEREUNDER on "AS IS WHERE IS BASIS" THROUGH "SALE BY INVITING TENDERS", as per brief particulars given hereunder:					
Sl. No.	Name of Borrower, Mortgagor & Branch.	Amount Recoverable.	Description of Property.	Reserve Price.	Earnest Money Deposit.
1.	Borrower/Mortgagor Smt. Reena Sharma W/o. Sh. Raja Sharma, JK/17/59 Branch: Jagatpuri	₹ 11,82,814/- together with further interest, penal interest and other charges as are applicable in the Loan account from time to time, from 30-06-2015 till the date of payment.	BUILT UP ONE HALL AT BASEMENT UP TO EXTENT OF CEILING LEVEL, PVT. HALL NO. 1, AREA MEASURING ABOUT 27.87 SQ. METERS (300 SQ. FTS), BEARING PROPERTY NO. S-11/D-20, OUT OF KHASRA NO. 27/1 AND 28/2, SITUATED IN THE ABADI OF S-BLOCK, PANDAV NAGAR, IN THE AREA OF VILLAGE GHARONDA NEEM KA BANGER, ILLAQA SHAHDARA, DELHI-110092.	Rupees Four Lakhs Sixty Thousand Only (₹ 4,60,000/-)	10% of the Bid Amount
Bank Draft/Pay Order for EMD should be in favour of "The Kangra Co-operative Bank Ltd., account Smt. Reena Sharma W/o. Sh. Raja Sharma JP/17/59".					
2.	Borrower Sh. Ajay Singh Rana S/o. Sh. Raghubir Singh Rana, A/c No. GP/15/38 Mortgagor/Surety Smt. Ritu Rana, D/o. Sh. Bhuri Singh Rana Surety Jarnail Singh, S/o. Sh. Kamal Singh. Branch: Govindpuri	₹ 1,75,39,133.57 together with further interest, penal interest and other charges as are applicable in the Loan account from time to time, from 30-04-2017 till the date of payment.	YC-498 AT PLOT NO. 3, BUILDING AREA, SECTOR-P-6, GREATOR NOIDA, DIST. GAUTAM BUDH NAGAR, U.P., DEVELOPED BY N.T.P.C. SHAKARI AVAS SAMITI LTD., HAVING AREA OF 125 SQ. MTRS. & COVERED AREA -224.873 SQ. MTRS.	Rupees Eighty Three Lakhs Fifty Thousand Only (₹ 83.50 Lakhs Only).	10% of the Bid Amount
Bank Draft/Pay Order for EMD should be in favour of "The Kangra Co-operative Bank Ltd., account Smt. Ajay Singh Rana S/o. Sh. Raghubir Singh Rana GP/15/38".					
3.	Sh. Rajesh Soni S/o. Sh. Diwan Singh Soni, JK/23/778. (Borrower & Mortgagor) Janakpuri Branch	₹ 12,93,450/- together with further interest, penal interest and other charges as are applicable in the Loan account from time to time, from 31-01-2019 till the date of payment.	BUILT UP GROUND FLOOR, AREA MEASURING 50 SQ. YDS. I.e., 41.80 SQ. MTRS., (9FT. X 50 FT.), OUT OF KHASRA NO. 317, BEARING PROPERTY NO. E-5/1, CONSISTING WHAT SOEVER THEREON AND WITHOUT ROOF RIGHTS, WITH ADJOINING COMMON STAIRS & ENTRANCE, SITUATED AT VILLAGE MUSTAFABAD, IN THE ABADI OF RAJIV GALL, DAYALPUR, ILLAQA SHAHDARA, DELHI-110094.	Rupees Eleven Lakhs Fifty Thousand Only (₹ 11,50,000/-)	10% of the Bid Amount
Bank Draft/Pay Order for EMD should be in favour of "The Kangra Co-operative Bank Ltd., account Sh. Rajesh Soni S/o. Sh. Diwan Singh Soni, JK/23/778".					
4.	(Borrower) Sh. Manish Mehra S/o. Sh. Sunil Mehra, RN/18/619. (Mortgagor & Surety) Sh. Ashish Mehra S/o. Sh. Sunil, Branch: Rohini	₹ 13,14,188 together with further interest, penal interest and other charges as are applicable in the Loan account from time to time, from 27-08-2015 till the date of payment.	PVT. BUILT UP SHOP BEARING NO. 44, WITHOUT ROOF RIGHTS, AREA MEASURING 16 SQ. MTRS., APPROXIMATELY, (SIZE AREA 10 X 17) OUT OF KHASRA NO. 215, ABADI KNOWN URBANISED VILLAGE NAHAR PUR, SECTOR-7, ROHINI, DELHI-110085, KHATAUNI SERIAL NO. OF KHATA KHATANI NO. 15/14 MIN URBANISED VILLAGE NAHARPUR, DITT. NORTH-WEST, KANJAWAL DELHI.	Rupees Thirteen Lakhs Fifty Two Thousand Only (₹ 13,52,000/-)	10% of the Bid Amount
Bank Draft/Pay Order for EMD should be in favour of "The Kangra Co-operative Bank Ltd., account Sh. Manish Mehra S/o. Late Sh. Sunil Mehra, RN/18/619".					
5.	Borrower Sh. Pramod Kumar Sharma S/o. Sh. Shesh Ram Sharma Mortgagor & Surety Smt. Veena Sharma W/o. Sh. Pramod Kumar Sharma.	₹ 26,15,722/- together with further interest, penal interest and other charges as are applicable in the Loan account from time to time, from 31-01-2019 till the date of payment.	PLOT NO. 203-204, KHASRA NO. 22/1,2,9,12,19,22/2, FIRST FLOOR (FRONT PORTION) CONSISTING OF TWO ROOMS, ONE KITCHEN, ONE TOILET & BATHROOM, WITHOUT ROOF RIGHTS MEASURING COVERED AREA NEAR ABOUT 50 SQ.YDS., SITUATED AT SANAJY GANDHI MEMORIAL NAGAR, TEHSIL & DISTRICT FARIDABAD.	Rupees Fourteen Lakhs Twenty Eight Thousand Only (₹ 14,28,000/-)	10% of the Bid Amount
Bank Draft/Pay Order for EMD should be in favour of "The Kangra Co-operative Bank Ltd., account Sh. Pramod Kumar Sharma S/o. Sh. Shesh Ram Sharma".					
6.	Sh. Raghubinder Kumar S/o. Sh. Kali Ram JK/24/88 Branch: Janakpuri	₹ 21,83,516/- together with further interest, penal interest and other charges as are applicable in the Loan account from time to time, from 29-04-2017 till the date of payment.	GROUND FLOOR AND FIRST FLOOR FREEHOLD PROPERTY BEARING NO. WZ-197, MEAS. 55 SQ. YDS. WITH ROOF/TERRACE RIGHTS, SITUATED AT BASSAI DARAPUR, DELHI STATE, DELHI-110015.	Rupees Twenty Lakhs Thirty Two Thousand Only (₹ 20,32,000/-)	10% of the Bid Amount
Bank Draft/Pay Order for EMD should be in favour of "The Kangra Co-operative Bank Ltd., account Sh. Raghubinder Kumar S/o. Sh. Kali Ram, JK/24/88".					
7.	(i) Sh. Rajinder Prasad Singh, S/o. Sh. Dharam Raj Singh, MV/2/870 (Borrower & Noticee No. 1) (ii) Smt. Sanju Devi, W/o. Sh. Rajinder Prasad Singh (Mortgagor & Noticee No. 2) Mayur Vihar Branch	₹ 12,85,083/- together with further interest, penal interest and other charges as are applicable in the Loan account from time to time, from 30-04-2017 till the date of payment.	PROPERTY, BUILT UP UNIT/FLAT/PORTION ON FIRST FLOOR (FRONT SIDE), UPTO THE EXTENT OF THE EXTENT OF CEILING LEVEL ONLY, AREA MEASURING AREA 36 SQ. METER (APPROX.), CONSISTING OF TWO ROOMS SET THEREON, WITH COMMON RIGHTS TO USE STAIRCASE, PASSAGE, ENTRANCE AND TWO WHEELER PARKING AT GROUND FLOOR, A PART OF PROPERTY BEARING NO. B-17, OUT OF KHASRA NO. 631, SITUATED IN THE ABADI OF MANDAWALI FAZALPUR, GALI NO. 19, RAILWAY COLONY, IN THE AREA OF VILLAGE MANDAWALI FAZALPUR, ILLAQA SHAHDARA, DELHI-110092.	Rupees Ten Lakhs Eighty Four Thousand Only (₹ 10,84,000/-)	10% of the Bid Amount
Bank Draft/Pay Order for EMD should be in favour of "The Kangra Co-operative Bank Ltd., account Sh. Rajinder Prasad Singh S/o. Sh. Dharam Raj Singh, MV/2/870".					
* The above mentioned property(s) shall be sold on "as is where is basis" and "as is what is basis" and "as is whatever there is basis", except, all the costs and expenses relating to pending electricity, water and house tax bills regarding the above mentioned property from the date of its possession by the Bank till the same are being sold by the Bank, shall be borne by the Bank, the above mentioned cost and expenses before the date of possession shall be borne by the concerned borrower(s)/mortgagor(s).					
* The aforesaid property(s) shall not be sold below the Reserve Price as mentioned above.					
* The bidder/tenderer shall deposit 10% of the amount of sale price/sale amount with the tender form as earnest money deposit, EMD of unsuccessful bidder/tenderer shall be returned immediately after completion of sale proceedings.					
* The successful bidder/tenderer shall deposit 25% of the amount of sale price, adjusting the Earnest Money Deposit paid already, immediately after the acceptance of Bid/Tender to the Authorised Officer in respect of the sale, failing which the earnest money deposit given/paid already shall be forfeited, and in default of such deposit, the aforesaid property(s) shall forthwith be sold again.					
* The balance 75% of the sale price shall be payable on or before 15 th day of confirmation of the sale by the Bank or such extended period as may be agreed upon in writing between the purchaser and the Secured Creditor, in any case not exceeding three months. In case of failure to deposit this balance amount within the prescribed period, the amount deposited shall be forfeited, and the aforesaid property(s) shall be resold and the defaulting purchaser shall forfeit all claims towards the aforesaid property(s) or to any part of the sum for which it may be subsequently sold.					
* The provisions of Private Treaty as provided in Law may be resorted to in case of need or if warranted so.					
* The Authorised Officer is not bound to accept the highest offer or any or all offers and reserves the right to accept or reject any or all the tenders/bids/offers without assigning any reasons therefor.					
* The successful purchaser would bear the Professional charges/fee payable, such as drafting, documentations, stamp duty, registration fee and any other incidental expenses thereto, as applicable as per Law.					
* The above named borrowers/mortgagors attention is also invited to provision of Sub-Section (8) of Section 13 of the SARFAESI Act, in respect of time available, to redeem the above mentioned property.					
* This publication is also 15 day's notice to the above named borrower/mortgagor/surety.					
Bid/Tenders alongwith Bank Draft/Pay order of the Earnest Money Deposit amount as mentioned in this Sale Notice, are invited in sealed covers by the undersigned from the intending buyer(s) for purchase of the above mentioned property(s), at the Head Office, C-29, Community Centre, Pankha Road, Janakpuri, New Delhi-110058. The last date for submission of the bid/tenders is 24-09-2020 which shall be opened on 25-09-2020 at 4.00 P.M. at the Office of the Authorised Officer of the Bank i.e. at Head Office, C-29, Community Centre, Pankha Road, Janak Puri, New Delhi-110058.					
The intending buyers/purchasers may inspect the property(s) on 10-09-2020 between 11.00 a.m. to 3.00 p.m. The other terms and conditions of the sale can be obtained from the Authorised Officer or the Manager (Legal) of the Bank, from Head Office at C-29, Community Centre, Pankha Road, Janakpuri, New Delhi-110058, for the above mentioned detailed terms and conditions of the sale, please also refer to the Secured Creditor's website i.e. www.kangrabank.com.					
RAMESH CHAND KASANA (AGM/Authorised Officer)					
THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD. Head Office at C-29, Community Centre, Pankha Road, Janakpuri, New Delhi 110058, Phone No. - 9013568402 DELHI.					
DATED: 04/09/2020					

न्यू एरा लिमिटेड एण्ड फाइनेन्स लिमिटेड					
पंजीकृत कार्यालय: 981, अग्रवाल मिलेनियम टॉवर-बी, नेताजी सुभाष प्लेस, डिफेंडर सेक्टर, वजीरपुर, टीबी टॉवर के सामने, गीतापुरा, नई दिल्ली-110034, E-mail ID: newera@newerafinance@gmail.com CIN: L67120DL1984PLC018800, दूरभाष: 011-69999350					
30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के अंकेषित वित्तीय स्टैंडअलोन उद्घरित परिणाम (₹ लाखों में)					
क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही (30.06.2020) (अनअंकेषित)	समाप्त तिमाही (31.03.2020) (अंकेषित)	समाप्त तिमाही (30.06.2019) (अंकेषित)	समाप्त तिमाही (31.03.2020) (अंकेषित)
1	संचालन से कुल आय	(1.90)	7.28	(1.33)	9.23
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(1.90)	4.07	(1.33)	0.18
3	कर से अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(1.90)	4.07	(1.33)	0.18
4	अवधि के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ/(विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(1.90)	4.07	(1.33)	0.18
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि हेतु कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय [शामिल कर (कर के बाद)]				
6	इक्विटी शेयर पूंजी (सममूल्य रूप 10/- प्रति शेयर)	400.00	400.00	400.00	400.00
7	रिजर्व (रिवेयूएन रिजर्व को छोड़कर) जैसा कि 31 मार्च अंकेषित तुलना पत्र में दर्शाया गया				
8	प्रति शेयर आय (सम मूल्य रूप 10/- प्रति शेयर) (संचालन जारी रखने एवं बंद करने के लिए):				
	मूल:	-0.0048	0.0102	-0.0033	0.0004
	दरल:	-0.0048	0.0102	-0.0033	0.0004
टिप्पणी:					
1. सेबी (सूची ओब्लिगेशन एण्ड प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के नियमन 33 के अन्तर्गत 30 जून, 2020 को उपरोक्त समाप्त तिमाही के उद्घरित अंकेषित वित्तीय परिणामों का विस्तारित स्वरूप स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल किया गया।					
2. उपरोक्त परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा करने तथा निदेशक मंडल की 07 सितम्बर, 2020 को सम्बन्धित बैठक में अनुमोदित किये गये।					
बोर्ड की ओर से कृते न्यू एरा लिमिटेड एण्ड फाइनेन्स लिमिटेड हस्ताक्षर/— राज विहारी शर्मा (प्रबन्ध निदेशक) DIN:06804500					
स्थान: नई दिल्ली तिथि: 07.09.2020					

AGARWAL DUPLEX BOARD MILLS LIMITED					
CIN: L99999DL1984PLC019052 Regd. Office: 217, Agarwal Prestige Mall, Plot No. 2 Community Centre, Alogn Road No. 44, Pitampura, Delhi - 110034 Board: +91 11 47527700, Fax: +91 11 47527777, E-mail: agarwalduplex1984@gmail.com ; Website: www.agarwalduplex.net					
UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2020					
(STANDALONE)					
Sl. No.	Particulars	30-Jun-20 3 months (Unaudited)	30-Jun-19 3 months (Unaudited)	31-Mar-20 3 months (Audited)	31-Mar-20 12 months (Audited)
₹ (In Lakhs)					
1	Total Income from Operations	1486.95	4410.78	3172.28	15351.85
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	32.44	43.77	44.11	160.89
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	32.44	43.77	44.11	160.89
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	24.25	32.00	14.88	114.16
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	24.25	32.00	11.72	111
6	Equity Share Capital	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	1346.58	1235.58	1,346.58	1,346.58
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)				
	1. Basic:	0.18	0.24	0.11	0.85
	2. Diluted:	0.18	0.24	0.11	0.85
Notice:					
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Unaudited Financial Results for the quarter ended 30/06/2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Unaudited Financial Results are available on Stock Exchange websites (www.agarwalduplex.net).					
2. The above results were reviewed and recommended by the audit committee and taken on record by the Board of Director at its meeting held on 08.09.2020 and the Statutory Auditor have carried Limited Review of the same.					
Agarwal Duplex Board Mills Limited					
Sd/- Neeraj Goel Managing Director DIN: 00017498					
Place : Delhi Date : 08.09.2020					

पंजाब नेशनल बैंक

...भरोसे का प्रतीक !

जार्जिक, पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से प्राधिकृत अधिकारी ने सिक्किम/टिस्ट/जेसन एण्ड रिजर्वेशन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड इन्वोस्टमेंट ऑफ सिक्किम/टिस्ट इंटरेस्ट एक्ट 2002 के नियम 3 के साथ पटित धारा 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सिक्किम/टिस्ट इंटरेस्ट 2002 के साथ 60 दिनों के भीतर नोटिस की अदायगी हेतु एक डिमांड नोटिस जारी किया था। ऋणी के द्वारा रकम की अदायगी न करने के कारण निम्नलिखित ऋणकर्ता एवं जन साधारण को नोटिस दी जाती है कि अग्रेहस्ताक्षरों ने प्रत्येक खाते के समक्ष अंकित तिथि को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पटित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उच्च-धारा (4) के तहत प्रतिनिधित्व हित (प्रवर्धन) नियम 2002 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधोलिखित सम्पत्ति का संकेतिक कब्जा दिनांक 05, सितम्बर, 2020 को ले लिया है। विशेषतः ऋणी एवं जन साधारण को एतद् द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे संबंधित परिसम्पत्ति की खरीद फरोख्त न करें तथा इन परिसम्प

AGARWAL DUPLEX BOARD MILLS LIMITED

(CIN: L99999DL1994PLC019052)
 Regd. Office: 217, Aggarwal Prestige Mall, Plot No. 2, Community Center,
 Along Road No. 44, Pitampura, New Delhi - 110034
 Website: www.agarwalduplex.net; Tel.: +91 11 47527700, Fax +91 11 47527777

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 36th Annual General Meeting of Shareholders of the Company will be held on **Wednesday, 30th September, 2020 at 11:30 A.M.** through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM"). In compliance with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/31/2020 and Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs and the SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India, companies are allowed to hold AGM through Video Conferencing, without the physical presence of members at a common venue. Hence the AGM of the company is being held through VC to transact the business set out in the Notice which has already been sent to the shareholders individually through e-mail if his/her e-mail address is registered with the Depository / Registrar & Transfer Agent. In accordance with the Circulars issued by MCA and SEBI, the requirement of dispatching of physical copies of Notice of AGM has been dispensed off. The Notice of 36th AGM is also available on the Company's website www.agarwalduplex.net, on the website of Stock Exchange www.sebi.gov.in and on the website of www.evotingindia.com. The dispatch of Notice of AGM through emails has been completed on 08th September, 2020.

The Company is providing its member the facility to exercise their right to vote by electronic means and the business may transact through e-voting Services provided by Central Depository Services Limited (CDSL). E-Voting facility will be available at the link www.evotingindia.com. The e-voting period commences on Sunday, 27th Sept, 2020 at 10:00 A.M. and ends on Tuesday, 29th Sept, 2020 at 5:00 P.M. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, it shall not be allowed to change subsequently. The Cut-off date for the purpose of e-voting shall be Wednesday, 23rd September, 2020. For electronic voting instructions, Shareholders may go through the instructions in the Notice of AGM of the Company. Person who acquires shares and become member of the company after the dispatch of notice and who are eligible shareholders as on cut-off date i.e. Wednesday, 23rd September, 2020 may contact Mr. Puneet Mittal on (011-29961281) or beetalra@gmail.com to obtain the login id and password.

Remote e-voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 P.M. of 29th Sept, 2020. A member may participate in the general meeting even after exercising her/his right to vote through remote e-voting, but shall not be allowed to vote again in the meeting. Facility for voting will also be made available during the AGM and those present in the AGM through VC facility, who have not cast their vote through Remote e-voting shall be eligible to vote through the e-voting system at the AGM. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting. The manner of Remote e-voting and in the AGM for Members holding shares in physical mode or in dematerialized mode and for members who have not updated their email addresses with the Company, is provided in the Notice of AGM. In case of any queries/grievances pertaining to e-voting, you may contact Mr. Puneet Mittal General Manager, Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd. at beetalra@gmail.com Telephone Nos. 011 29961281 or contact Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542) or refer to frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com. Notice pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 read with regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is also hereby given that the Register of Members & Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 24th Sept, 2020 to Wednesday 30th Sept, 2020 (Both days inclusive) for 36th Annual General Meeting of Company.

By Order of the Board
 For Aggarwal Duplex Board Mills Ltd.
 (Sd/-)
 (Sarika Aggarwal)
 Company Secretary

Date: 09.09.2020
 Place: Delhi



पंजीकृत कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001,
 फोन नं. 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com

शाखा पता - सूची 11, 12 एवं 13, एस्सी बीटा टॉवर, प्लॉट नं 10, सेक्टर - 3, मधुपुर, गाजियाबाद (उ.प्र.) - 201011,
 फोन नंबर 0120-2699115, 2699116, 117

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियामकी, 2002 के नियम 3(1) के साथ पंजीकृत वित्तीय आरिक्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय 111 की धारा 13(2), अचलत संशोधित, के अधीन सूचना

हम, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (इसमें आगे "पीएनबीएफएफएल" के रूप में संदर्भित) ने अपनी शाखा पता - सूची 11, 12 एवं 13, एस्सी बीटा टॉवर, प्लॉट नं 10, सेक्टर - 3, मधुपुर, गाजियाबाद (उ.प्र.) - 201011, पर स्थित है शाखा कार्यालय द्वारा वित्तीय आरिक्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आगे "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के अध्याय 111 की धारा 13(2) अधीन मांग सूचना जारी की थी। उक्त मांग सूचना हमारे प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से निम्नलिखित आग सूचक/दस्तावेजों/साह-कर्मियों को जारी की गई थी, क्योंकि आग सूचना, किसी/किसी/व्याज का भुगतान नहीं किया जाने के कारण, भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय आवास बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जाक आरिक्त के रूप में पंजीकृत किया गया है। उसकी विधिवत रूप से आग सूचना की किराये, ब्याज इत्यादि के भुगतान में की गई सूची के साथ संशोधित है। बकाया राशि नीचे दी गई है। आगे, हमें कारणों के आधार पर विश्वास है कि आग मांग सूचना प्राप्त करने से यह रहे और हमें इच्छा है कि आग सूचना प्रकाशित की जा रही है, जिससे उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन अपेक्षित नहीं है। एतद्वारा आग सूचना, अचलत ब्याज तथा अन्य शर्तियों सहित, जो भुगतान की तिथि तक देय हो सकती है, इस मांग सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर पीएनबीएफएफएल को अदा करने की मांग की जाती है। जिसमें विफल रहने पर पीएनबीएफएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अधीन, किसी एक या अधिक की मांग की जाती है। आगका ब्याज वित्तीय आरिक्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है, जिसके तहत अधीन आप सम्पूर्ण बकाया राशि, पीएनबीएफएफएल द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों तथा व्ययों सहित, का भुगतान सार्वजनिक नीलामी, जनता से कोटेसन, निविदा आमंत्रण द्वारा अथवा गृह समझौते द्वारा प्रत्याभूति आरिक्तियों को किसी की सूचना के प्रकाशन की तिथि तक ही कर सकते हैं। कृपया यह भी नोट करें कि यदि सम्पूर्ण बकाया राशि, पीएनबीएफएफएल द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों तथा व्ययों सहित, का भुगतान सार्वजनिक नीलामी, जनता से कोटेसन, निविदा आमंत्रण द्वारा अथवा गृह समझौते द्वारा प्रत्याभूति आरिक्तियों को किसी की सूचना के प्रकाशन की तिथि तक नहीं किया जाता है, तो आप उसके परामर्श प्रत्याभूति आरिक्तियों को चुड़ाने के हकदार नहीं होंगे। आगे, आप के ऊपर, उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अधीन उपरोक्त प्रत्याभूति आरिक्तियों का विधिक, पट्टा या किसी अन्य प्रकार से अंतरण करने के संबंध में, रोक लगी है।

क्र. सं.	ऋण खाता सं.	ऋण/साह-कर्मियों का नाम/पता	कार्टर का नाम/पता	बंधक रखी गई सम्पत्ति/थी	मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना की तिथि तक बकाया राशि
1.	HOU/GHA/0515/219466 श्री.ओ. गाजियाबाद	अमित कल्याण, श्रीमती रेणु कल्याण, सी-4, ईस्टवेल बिल्डिंग, सिंग रोड, बेंगलूर, कर्नाटक	नहीं है	804, 8वां, टॉवर एएफ, अरवि हाउसिंग, ग्राम-रिडो, सेक्टर - 84, मुन्गावा, हरियाणा, 122001	03.09.2020	₹ 46,86,219.12
2.	HOU/GHA/0415/215722 श्री.ओ. गाजियाबाद	श्री नवीन सोनी, श्रीमती स्वर्णि सोनी, डी-58ए, सेक्टर-26, नोएडा, गौम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश -201301, भारत	नहीं है	फ्लैट नंबर 1203, 12, टॉवर सीए 7, कीर्तिदल फ्लैना (होल्ड), प्लॉट नंबर 10ए-ए-12 ए-2, सेक्टर -01, ग्रैंड नोएडा, इंडो मिल्स-1 के पास (परिपेक्षा), नोएडा, उत्तर प्रदेश, 201301	03.09.2020	₹ 42,56,386.76
3.	00306660 003120 श्री.ओ. गाजियाबाद	श्रीमती मरिया सान्याल, श्री साईरान सान्याल, 68-डी-डिलीप, शाहजहाँ रोड, दिल्ली -110011, भारत	नहीं है	फ्लैट नंबर 2802, टॉवर नंबर -9, गार्डन इस्टेस, जेपी ग्रीन्स नोएडा, उत्तर प्रदेश, 201301	03.09.2020	₹ 76,76,951.88
4.	00306660 001271 श्री.ओ. गाजियाबाद	मिथिलेश कुमार सिंह, श्रीमती वंदना सिंह, 420 कोटला गिहार, पीएच-2 तिलगपुर, कोटला, नई दिल्ली-110043, भारत	नहीं है	फ्लैट नं 0204, हिलीय तन, टॉवर सीड सुनिहोम 3, सेक्टर - 113, नोएडा, उत्तर प्रदेश, 200013	03.09.2020	₹ 7,99,050.71
5.	HOU/GHA/0917/427857 श्री.ओ. गाजियाबाद	राजीव तोमर, श्रीमती नीती पवार, हाउस नंबर 102, ब्लॉक बी 3 सेक्टर 18, रोहिणी, नई दिल्ली -110011, भारत	नहीं है	1706, 17, टॉवर 30, सोरस बुल्डिंग, पुणे हाउसिंग प्लॉट नंबर- जीएच-003, जो नंबर-100, नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत -201301 में स्थित	03.09.2020	₹ 88,59,416.80

स्थान : दिल्ली एनसीआर, दिनांक : 09.09.2020 प्राधिकृत अधिकारी, मैनेजर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

BTG Global Advisory INTEGRATED CAPITAL SERVICES LIMITED
www.btgg.com
 Registered Office: 606 New Delhi House, 27 Barakhamba Road, New Delhi 110 001
 T/F + 91 11 4354 2784, WhatsApp +91 9811903458;
 Email: contact@raas.co.in, www.raas.co.in
 Corporate Identification Number L74899DL1993PLC051981

Notice of 27th Annual General Meeting E-Voting Information and Book Closure

Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held on **Wednesday, 30th September, 2020 at 10:00 a.m.** through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact to business as set out in the Notice convening the 27th AGM. The AGM will be held through VC/OAVM without the physical presence of the Members in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligation and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Obligation Regulations") read with General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated 15th May, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 issued by the Securities & Exchange Board of India ("SEBI Circular").

In compliance with the MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of the 27th AGM and the Annual Report for the financial year 2019-20, which, inter-alia, comprises, Notice of the AGM and the Audited financial statements (standalone and consolidated) of the Company for the financial year 2019-20, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, has been sent to all the members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). The Notice of AGM and Annual Report 2019-20 are available on the Company's website viz. www.raas.co.in and may also be accessed from the relevant section of the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.

The details such as manner of (i) registering / updating email addresses, (ii) casting vote through e-voting and (iii) attending the AGM through VC / OAVM, has been set out in the Notice of the AGM.

Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Act read with applicable rules thereunder and Regulation 42 of the SEBI Listing Regulations, that the Registrar of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from **Thursday, the 24th September, 2020 to Wednesday, the 30th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of AGM.**

Further pursuant to the provision of Section 108 of the Act read with applicable rules thereunder and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company is providing to its Members the facility of remote e-voting before the AGM, and during the AGM in respect of businesses to be transacted at the AGM and for the purpose, the Company has appointed NSDL, for facilitating voting through electronic means. The AGM notice, inter-alia, mentions the process and manner of remote e-voting and e-voting during AGM and instructions with regard to login credentials for members holding shares in physical or in demat form, who have not registered their email addresses either with the Company. The voting rights, by remote e-voting of the Members shall be proportionate to the share in the paid up equity share capital of the Company as on the cut off date, **Wednesday, 23rd September, 2020.**

All the members are informed that (a) the business are set out in the notice of 27th AGM shall be transacted through voting by electronic means, (b) the remote e-voting shall commence on **Saturday, the 26th September, 2020 at 9.00 AM (IST)** (c) the remote e-voting shall end on **Tuesday, the 29th September, 2020 at 5.00 PM (IST)** (d) the cut off date of reckoning the rights of Members for remote e-voting is **Wednesday, the 23rd September, 2020** (e) the remote e-voting not be allowed after **5.00 PM (IST) on Tuesday, the 29th September, 2020**, (f) E-voting shall also be made available at the 27th AGM. (g) persons whose names is recorded in the register of Members/Beneficial Owners maintained by the depositories as on cut off date **l Wednesday, 23rd September, 2020** shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting at the AGM, (h) persons whose have acquired shares and becomes members of the Company after the notice has been sent electronically and holding shares as on the cut off date **l Wednesday, 23rd September, 2020** may obtain the login id and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or delhi@linkintime.co.in, and in case of queries members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call toll free number: 1800-222-9990 or send a request at evoting@nsdl.co.in.

The Company has appointed Mr. Rajesh Lakhapal (FCS 5679), Company Secretary in Practice, as the scrutinizer to scrutinize the Remote e-voting and e-voting process in fair and transparent manner.

Members holding shares in physical mode are requested to inform if there has been a change in their address to the Company's RTA, i.e. Link In Time India Private Limited, Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH-2, C-1, Block, LSC Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058 and members holding shares in demat mode should inform their Depository Participant about change in their address.

For Integrated Capital Services Limited
 (Sd/-)
 Lakshay Prakash
 Company Secretary & Compliance Officer

Date: 08.09.2020.
 Place: New Delhi

भारतीय पत्तन ग्लोबल लिमिटेड

संसाधन: U61100MH2015GOI261274

वैश्विक निविदा सूचना - टेंडर नं: आइपीजीएल/आएएमयूसी/2020

शहीद बेहेरी पत्तन, चांदनार, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में चार (04) संख्या रेल मास्टर्ड क्वे क्रैन (RMQC) के लिए अफिकन, बिल्टिंग, पूर्ण संस्थापन, परीक्षण, चालू करना तथा प्रदर्शन की गारंटी, के लिए निविदा 20.03.2017 का "प्रस्ताव के लिए अनुरोध", को रद्द कर दिया गया है तथा पुनः बोली वृत्तिक निविदा के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। दिनांक 31.08.2020 को नोटिस के इच्छुक बोलीदाताओं से प्रस्तावों के आमंत्रण के लिए अपील किया जाएगा। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि: 05.10.2020 (15:00 बजे) है। पूर्ण विवरण हेतु, लिंग इन करें <http://ipa.nic.in>; <https://www.sdclindia.com/>



ARYAMAN FINANCIAL SERVICES LIMITED

CIN: L74899DL1994PLC059009
 Regd Office: 102, Ganga Chambers, 6A/1, W.E.A., Karol Bagh, New Delhi - 110 005.
 Corporate Office: 60, Khatau Building, 6r. Floor, Akshesh Dinesh Modi Marg, Opp. P.J. Tower (BSE Bldg.), Fort, Mumbai - 400 001
 Tel.: 022-6216 6999 | Fax: 22630434
 Website: www.afsl.co.in | Email: info@afsl.co.in

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 read with Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Tuesday, September 15, 2020 at 05:00 PM**, at Corporate Office of the Company at 60, Khatau Building, Ground Floor, Akshesh Dinesh Modi Marg, Opp. P. J. Tower (BSE Bldg.), Fort, Mumbai - 400 001, inter-alia to discuss and approve Unaudited Consolidated and Standalone Financial results for the quarter ended June 30, 2020.

Further, in terms of the Code of Conduct of Company adopted under SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 the trading window for dealing in the securities of the Company is, already closed and shall open 48 hours after conclusion of the Board Meeting.

The said Notice is available on the website of BSE Limited and on Company's website. (<http://www.afsl.co.in/investor-relation.html>).

For and on behalf of
 Aryaman Financial Services Limited
 (Sd/-)
 Chaitali Pansari
 (Company Secretary)

Place: Mumbai
 Date: 08.09.2020



शाखा कार्यालय: 31/32, आसा राम रोड, जी.टी. रोड, शाहदरा, दिल्ली-110032

कच्चा सूचना (प्रतिभूति हित प्रवर्तन), अधिनियम 2002 के नियम 8(1) के तहत

जबकि वित्तीय आरिक्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 54) के अंतर्गत यूको बैंक, शाहदरा, दिल्ली शाखा का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 8 के साथ पड़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रवृत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना, दिनांक 17.04.2014 जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदार: श्रीमती कमर जहाँ पत्नी हासिम अली**, को सूचना में उल्लिखित राशि **12,48,128/- (बारह लाख अड़तालिस हजार एक सौ अठ्ठाइस रुपये मात्र)** एनपीए की तारीख से आगे ब्याज के साथ, उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर आकस्मिक शुल्क, लागत, प्रभार के साथ चुकाने के लिए कहा गया था। कर्जदार को इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार/रहेन तथा आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन) अधिनियम 8 के साथ पड़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रवृत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का नैतिक कच्चा दिनांक **04.09.2020** को ले लिया है। कर्जदार को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेन-देन **04.09.2020** को **₹ 10,87,742/- (दस लाख सतासी हत्तर सात सौ ब्यात्तिस रुपये मात्र)** एनपीए की तारीख से आगे ब्याज, आकस्मिक शुल्क, लागत, प्रभार के साथ, यूको बैंक, शाहदरा, दिल्ली शाखा के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा। ऋणियों/गारंटियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा (13) की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

चल/अचल सम्पत्ति का विवरण

सी-35 पर स्थित अचल सम्पत्ति, परिमाण 100 वर्गज, खसरा नं.116/1 का भाग, अपनी पूरी संरचना के साथ एवं बिजली और पानी के नल कनेक्शन के साथ सुरक्षित अंतिम मंजिल तक के निर्माण के अधिकार के साथ गांव घोडा पुरजन बांगर में स्थित उत्तरी घोडा के आबादी में, इलाका - शाहदरा, दिल्ली-110053.
तिथि: 04.09.2020 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: नई दिल्ली यूको बैंक

Dynamic Portfolio Management & Services Limited
 Regd. Office : 916, Tower-2, Pearl Omax Building, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi - 110034 CIN - L74140DL1994PLC304881
 website: www.dynamicwealthservices.com, email: dpmns.kolkata@gmail.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2020

S. No.	Particulars (Refer Notes below)	Quarter Ended		Year ended
		30.06.2020 (Unaudited)	31.03.2020 (Audited)	
	Revenue from Operations			
	a) Interest Income	25.70	33.33	23.44
	b) Dividend Income	-	-	-
	c) Fees and commission Income	-	-	-
	d) Net gain on fair value changes	-	-	-
	e) Net gain on derecognition of financial instruments under amortised cost category	-	-	-
	g) Sale of products(including Excess Duty)	-	-	-
	h) Sale of services	-	-	-
	i) Others (to be specified)	-	0.10	0.10
I	Total Revenue from operations	25.70	33.43	23.44
	Other Income	-	0.16	0.16
II	Total Income (III+IV)	25.70	33.59	23.44
	Expenses			
	a) Finance Cost	6.31	7.09	3.78
	b) Fee and Commission Expenses	-	-	23.12
	c) Net loss on fair value changes	-	-	-
	d) Net loss on derecognition of financial instruments under amortised cost category	-	-	-
	e) Impairment on financial instruments	-	-	-
	f) Cost of materials consumed	-	-	-
	g) Purchases of Stock-in-trade	-	-	-
	h) Changes in Inventories of finished goods, stock-in-trade and work-in-progress	-	1.34	1.34
	i) Employee benefits expense	7.35	11.40	6.34
	j) Depreciation and amortisation expense	0.02	0.07	0.10
	k) Listing fees	4.72	0.48	5.50
	l) Legal & Professional Fees	-	5.05	1.91
	m) Other general & miscellaneous Expenses	2.46	7.00	1.91
III	Total Expenses	20.87	32.42	13.94
IV	Profit / (loss) before exceptional items and tax (III-IV)	4.83	1.01	9.50
	Exceptional items	-	-	-
V	Profit/(Loss) before tax (V-IV)	4.83	1.01	9.50
	Tax expense			
	(1) Current Tax	1.25	0.80	2.47
	(2) Deferred Tax	-	(0.04)	0.19
IX	Profit / (loss) for the period from continuing operations(VIII-VII)	3.57	0.25	7.03
X	Profit/(loss) from discontinued operations	-	-	-
XI	Tax expense of discontinued operations	-	-	-
XII	Profit/(loss) from discontinued operations (After tax) (X+XI)	3.57	0.25	7.03
XIII	Profit/(Loss) for the period (IX+XII)	3.57	0.25	7.03
XIV	Other Comprehensive Income	-	-	-
XV	Total Comprehensive Income for the period (XIII+XIV)	3.57	0.25	7.03
14	Paid-up Equity share capital (Face value of Rs. 10/- each)	1,169.18	1,169.18	1,169.18
15	Earnings per share (of Rs. 10/- each) (not annualised for quarterly figures): a) Basic (Rs.) b) Diluted (Rs.) See accompanying notes to the financial results	0.03 0.03 0.03	0.03 0.03 0.03	0.03